

## परिशिष्ट सारणी IV.3: भारत में बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियां - लिखतों के प्रकार के आधार पर

(राशि ₹ करोड़ में)

| आस्तियों के प्रकार                            | बकाया राशि<br>(मार्च के अंत में) |                 | प्रतिशत घट-बढ़ |              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|--------------|
|                                               | 2024 (आं सं)                     | 2025 (आं सं)    | 2023-24        | 2024-25      |
| 1                                             | 2                                | 3               | 4              | 5            |
| <b>1. ऋण और जमा राशियाँ</b>                   | <b>4,39,804</b>                  | <b>7,80,804</b> | <b>-20.4</b>   | <b>77.5</b>  |
|                                               | <b>(86.3)</b>                    | <b>(88.9)</b>   |                |              |
| जिसमें कि:                                    |                                  |                 |                |              |
| (ए) अनिवासियों को ऋण                          | 97,450                           | 1,86,907        | -26.8          | 91.8         |
|                                               | (19.1)                           | (21.3)          |                |              |
| (बी) निवासियों को विदेशी मुद्रा ऋण            | 1,21,229                         | 1,74,440        | 11.9           | 43.9         |
|                                               | (23.8)                           | (19.9)          |                |              |
| (सी) बकाया निर्यात बिल                        | 29,228                           | 39,590          | -14.6          | 35.5         |
|                                               | (5.7)                            | (4.5)           |                |              |
| (डी) उपलब्ध विदेशी मुद्रा, यात्री चेक इत्यादि | 858                              | 790             | 15.5           | -7.9         |
|                                               | (0.2)                            | (0.1)           |                |              |
| (ई) नॉस्ट्रो शेष और विदेश में स्थानन          | 1,91,039                         | 3,79,078        | -30.8          | 98.4         |
|                                               | (37.5)                           | (43.1)          |                |              |
| <b>2. धारित कर्ज प्रतिभूतियाँ</b>             | <b>11,816</b>                    | <b>42,826</b>   | <b>-73.5</b>   | <b>262.4</b> |
|                                               | <b>(2.3)</b>                     | <b>(4.9)</b>    |                |              |
| <b>3. अन्य अंतरराष्ट्रीय आस्तियाँ</b>         | <b>13,865</b>                    | <b>16,926</b>   | <b>-34.5</b>   | <b>22.1</b>  |
|                                               | <b>(2.7)</b>                     | <b>(1.9)</b>    |                |              |
| <b>4. धनात्मक एमटीएम डेरिवेटिव</b>            | <b>43,890</b>                    | <b>38,162</b>   | <b>-7.5</b>    | <b>-13.0</b> |
|                                               | <b>(8.6)</b>                     | <b>(4.3)</b>    |                |              |
| <b>कुल अंतरराष्ट्रीय आस्तियाँ*</b>            | <b>5,09,375</b>                  | <b>8,78,718</b> | <b>-23.5</b>   | <b>72.5</b>  |
|                                               | <b>(100.0)</b>                   | <b>(100.0)</b>  |                |              |

\* : सभी शाखाओं से अधूरे डेटा कवरेज को देखते हुए, स्थानिक बैंकिंग सांख्यिकी (एलबीएस) के तहत रिपोर्ट किए गए आंकड़े सभी शाखाओं से प्राप्त किए गए डेटा के साथ पूरी तरह से तुलनीय नहीं हैं।

आं सं. : आंशिक रूप से संशोधित।

टिप्पणियाँ: 1. पूर्णांकन के कारण कुल योग घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

2. नवीनतम बीआईएस दिशानिर्देशों के आधार पर, एमटीएम डेरिवेटिव को सितंबर 2022 तिमाही से इस विवरण में शामिल किया गया है।

3. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी, आरबीआई।